

Tear Here

प्रश्न पत्र को खोलने के लिए यहाँ फाँड़ें
TEAR HERE TO OPEN THE QUESTION PAPER

यहाँ से काटिए

Sl.No. :

नामांक	Roll No.

No. of Questions – 22

No. of Printed Pages – 19

SS-30-Accountancy

उच्च माध्यमिक परीक्षा, 2024
SENIOR SECONDARY EXAMINATION, 2024

लेखाशास्त्र

ACCOUNTANCY

समय : 3 घण्टे 15 मिनट

पूर्णांक : 80

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश :

GENERAL INSTRUCTIONS TO THE EXAMINEES :

1) परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें।

Candidate must write first his / her Roll No. on the question paper compulsorily.

2) सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं।

All the questions are compulsory.

3) प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका में ही लिखें।

Write the answer to each question in the given answer-book only.

- 4) जिन प्रश्नों में आन्तरिक खण्ड हैं, उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें।

For questions having more than one part, the answers to those parts are to be written together in continuity.

- 5) प्रश्न पत्र के हिन्दी व अंग्रेजी रूपान्तरण में किसी प्रकार की त्रुटि / अन्तर / विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही मानें।

If there is any error / difference / contradiction in the Hindi & English versions of the question paper, the question of the Hindi version should be treated valid.

खण्ड - अ
SECTION - A

1) बहुविकल्पी प्रश्न : (i से xv)

Multiple Choice Questions : (i to xv)

i) निम्न में से कौन-सी एक मद लाभ-हानि विनियोग (नियोजन) खाते से संबंधित नहीं है? [1]

- अ) साझेदारों की पूंजी पर ब्याज ब) साझेदार को देय वेतन
स) साझेदारों के ऋणों पर ब्याज द) साझेदारों के आहरण पर ब्याज

Which one of the following items is not related to profit and Loss Appropriation A/c?

- A) Interest on Partners Capital B) Salary Payable to a Partner
C) Interest on Partners Loan (Debt) D) Interest on Partners Drawings

ii) संगीता और सुमन एक फर्म में $5/8 : 3/8$ में लाभ-हानि बाँटती हुई साझेदार है, वे $1/8$ हिस्से के लिए अंशु को प्रवेश देती है, जिसे वह दोनों से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। त्याग का अनुपात होगा :- [1]

- अ) 5 : 3 ब) 1 : 1
स) 3 : 5 द) 3 : 1

Sangeeta and Suman are partners in a firm sharing Profit and Losses in the ratio of $5/8 : 3/8$. They admit Anshu for $1/8$ share in profits, which he receives from both of them in equal proportion. The sacrifice ratio will be :-

- A) 5 : 3 B) 1 : 1
C) 3 : 5 D) 3 : 1

iii) आशा, सुमित्रा और सोनिया एक फर्म में $2/8$, $1/2$ और $3/8$ में लाभ बाँटती हुई साझेदार है। सोनिया फर्म से अवकाश ग्रहण करती है, अधिलाभ (फायदे) का अनुपात क्या होगा? [1]

- अ) 2 : 1 ब) 1 : 2
स) 1 : 3 द) 2 : 3

Asha, Sumitra and Sonia are partners in a firm sharing profit in the ratio of $2/8$, $1/2$ and $3/8$. Sonia retires from the firm. What will be the Gaining ratio?

- A) 2 : 1 B) 1 : 2
C) 1 : 3 D) 2 : 3

2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : (i से vii)

Fill in the blanks : (i to vii)

- i) संचित लाभों तथा संचयों को पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में अनुपात में वितरित किया जाता है। (त्याग/पुराने) [1]

Accumulated Profits and Reserve are distributed among old partners capital account in _____ ratio. (sacrifice/old)

- ii) विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्त साझेदार के भाग का अधिग्रहण करेंगे का अनुपात कहलाता है। (अधिलाभ(फायदे)/नया) [1]

The ratio in which the continuing partners will acquire the share from the retiring partner is called _____ Ratio. (Gaining/New)

- iii) एकल व्यक्ति कम्पनी की प्रदत्त पूंजी ₹..... से अधिक नहीं हो सकती है। (5 लाख/50 लाख) [1]

One person company's paid up Capital can not be more than ₹ _____ (5 Lakh/50 Lakh)

- iv) एक कम्पनी समता अंशों को बट्टे पर निर्गमन कर सकती है। (सामान्य/स्वेद (स्वेट)) [1]

A company can issue _____ equity shares at discount. (General/Sweat)

- v) ऋणपत्र, वे ऋणपत्र है, जो सुपुर्दगी (डिलीवरी) के द्वारा हस्तांतरित किए जा सकते हैं। (वाहक/पंजीकृत) [1]

_____ debentures, are the debentures which can be transferred by way of delivery? (Bearer/Registered)

- vi) मद मुख्य शीर्षक उप-शीर्षक [1]

प्रतिभूति प्रीमियम संचय संचय व आधिक्य

(चालू दायित्व/अंशधारी कोष)

Item Major-Head Sub-Head

Securities premium

Reserve Res. and surplus

(Current Liabilities/Shareholder's fund)

- vii) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की के अनुसार तुलन-पत्र बनाया जाता है। (अनुसूची-VI/अनुसूची-III) [1]

According to Indian Companies Act, 2013, Balance-Sheet is prepare as per _____ (Schedule-VI/Schedule-III)

3) अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न : (i से x)

Very short answer type questions : (i to x)

- i) साझेदारों के मध्य लिखित समझौता, कहलाता है? [1]

A written agreements between partners, is called?

- ii) भावेश और राजू एक फर्म में 3 : 2 में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। वे सोनू को लाभों में हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं, वे भविष्य में लाभों को 2 : 2 : 1 में बाँटने का निर्णय लेते हैं, त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। [1]

Bhavesh and Raju are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3 : 2. They admit to Sonu for share in profits. They decided to divide the future profits in 2 : 2 : 1 ratio. Calculate the sacrifice ratio.

- iii) एक्स, वाई और जेड 2 : 3 : 4 में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं, जेड फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। पूनर्मूल्यांकन पर हानि ₹81,000 है। जेड का पूनर्मूल्यांकन की हानि में हिस्सा ज्ञात कीजिए। [1]

X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 2 : 3 : 4. Z retires from the firm. Loss on revaluation is ₹81,000. Calculate the Z's share in loss on revaluation.

- iv) साझेदार की मृत्यु की दशा में, पुस्तकों में विद्यमान सामान्य संचय को किस अनुपात में वितरित किया जाता है? [1]

In case of death of a partner, the General Reserve existing in books is distributed, in which ratio?

- v) प्रीति लिमिटेड ने ₹10 वाले 10,000 समता अंश ₹1 प्रति अंश प्रीमियम पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए। ₹4 प्रति अंश की दर से आवेदन की कुल राशि ₹45,600 प्राप्त हुई। प्राप्त आवेदनों की संख्या बताइए? [1]

Preeti limited had invited application for ₹10,000 equity share of ₹10 each at a premium of ₹1 each. Total application money received at ₹4 per share of ₹45,600. State the numbers of application that are received.

- vi) यदि 12,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात (प्रो-राटा) आधार पर 8,000 अंश बंटित किए गए, तो जिस अंशधारी ने 1,500 अंशों के लिए आवेदन किए, उसे कितने अंश आबंटित किए होंगे? [1]

If applicants for 12,000 shares were allotted 8,000 shares on pro-rata basis, how many share were allotted to a shareholder who had applied for 1,500 shares?

- vii) अवधि/शोधन के दृष्टिकोण से ऋणपत्रों के प्रकार बताइए। [1]

State the types of debentures on the basis of period/redemption?

viii) चिट्ठे की मद	मुख्य-शीर्षक	उप-शीर्षक	[1]
ऋणपत्र	?	?	
Item in Balance-Sheet	Major-Head	Sub-Head	
Debentures	?	?	

- ix) ऋणपत्रों के समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में, यदि प्रविष्टि की जाती है, तो कौन-सा खाता क्रेडिट (जमा) किया जाएगा? [1]

In the case of issue of debentures as collateral securities, If entry is passed, which account will be credited?

- x) वित्तिय-विवरणों के किन्हीं दो उपयोगकर्ता के नाम लिखिए? [1]

Write the name of any two users of Financial-Statements?

SECTION - B

लघुत्तरात्मक प्रश्न : (शब्द सीमा 50 शब्द)

Short answer type questions : (Word Limits 50)

- 4) रानू एक फर्म में साझेदार है, फर्म से प्रत्येक माह के अंतिम दिन ₹5,000 का आहरण करती है। ब्याज 12% वार्षिक दर से वसूल किया जाता है, आहरण पर ब्याज की राशि की गणना कीजिए। [2]

Ranu is a partner in a firm. She withdrew ₹5,000 on the last day of every month. The interest is charged @ 12% per annum. Calculate the interest on drawings.

- 5) एक फर्म में विनियोजित पूंजी ₹4,00,000 है, लाभ की सामान्य दर 10% है। फर्म के औसत लाभ ₹50,000 (₹5,000 असामान्य हानि को नहीं घटाया गया) है। अधिलाभ के तीन गुने के बराबर ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। [2]

Invested capital is ₹4,00,000 in a firm. Normal rate of profit is 10% Average profit of the firm are ₹50,000 (Abnormal loss of ₹5,000 is not deducted). Calculate the value of goodwill at three times of the super profit.

- 6) कैलाश और प्रकाश क्रमशः ₹35,000 और ₹25,000 की पूंजी के साथ साझेदार हैं, उन्होंने फर्म के लाभों में 1/3 हिस्से के साथ राम को नये साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। राम अपने हिस्से की पूंजी ₹35,000 लाता है, फर्म की ख्याति की राशि ज्ञात कीजिए। [2]

Kailash and Prakash are partners with capital of ₹35,000 and ₹25,000 respectively. They admitted Ram as a new partner with 1/3rd share in firm's profit. Ram brings ₹35,000 as his share of capital. Calculate the value of firm's goodwill.

- 7) फायदे (अधिलाभ) के अनुपात का सूत्र क्या है, इसकी गणना कब की जाती है? [2]

What is the formula of Gaining ratio, when is it calculated?

- 8) बालमुकुंद, विनीत और सुधांशु एक फर्म में 2 : 3 : 4 में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं। सुधांशु फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, इसी तिथि को तुलन-पत्र (आर्थिक-चिट्ठा) ₹27,000 का सामान्य संचय दर्शा रहा है। सुधांशु के अवकाश ग्रहण पर आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दीजिए। [2]

Balmukund, Vineet and Sudhansu are partners in a firm, Sharing profits in the ratio of 2 : 3 : 4. Sudhansu retires from the firm. On this date, Balance-Sheet is showing General Reserve of ₹27,000. Pass necessary Journal Entry on retirement of Sudhansu.

- 9) शिव, नंदू और मोहन एक फर्म में 3 : 3 : 2 में लाभ बाँटते हुए साझेदार हैं, शिव फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, तथा ख्याति का मूल्यांकन ₹56,000 पर किया गया। फर्म की पुस्तकों में बिना ख्याति खाता खोले समायोजन प्रविष्टि दीजिए। [2]

Shiv, Nandu and Mohan are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 : 3 : 2. Shiv retires from the firm and the goodwill is valued at ₹56,000. Give adjustment entry in the books of firm without opening the goodwill Account.

- 10) फर्म के समापन (विघटन) के समय, एक गैर-अभिलिखित (पुस्तकों में न दर्ज) दायित्व ₹10,000 का भुगतान एक साझेदार द्वारा किया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दर्ज कीजिए। [2]

At the time of dissolution of the firm, unrecorded liability of ₹10,000 is paid by a partner. Record the necessary Journal Entry.

- 11) “अधि-अभिदान” और “न्यून-अभिदान” को परिभाषित कीजिए। [2]

Define "Over-Subscription" and "under-subscription".

- 12) एक कम्पनी ने 1 अप्रैल, 2023 को ₹100 वाले 5,000; 8% ऋणपत्र, 10 प्रतिशत बट्टे पर निर्गमित किए। प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते का शेष ₹45,000 है। ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टे की राशि अपलिखित करने की आवश्यक प्रविष्टि दीजिए। [2]

On 1st April, 2023 a company issued 5,000; 8% debentures of a ₹100 each at a discount of 10%. The balance of securities premium Reserve is ₹45,000. Give necessary entry for writing-off the amount of discount on issues of debentures.

- 13) मधूसूदन लिमिटेड ने गोपाल लिमिटेड से ₹2,00,000 में एक प्लांट खरीदा। क्रय प्रतिफल की भुगतान की सहमति के हिसाब से ₹10,000 का चैक जारी किया गया तथा शेष बकाया राशि के लिए ₹100 प्रति ऋणपत्र से 9% ऋणपत्र 5% बट्टे पर जारी किए गए। जारी किए गए ऋणपत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। [2]

Madhusudan Limited purchased a plant from Gopal Limited for ₹2,00,000 and agreed to make the payment of purchase consideration by issuing cheque of ₹10,000 and for remaining due payment by issuing 9% debentures of ₹100 each at a discount of 5%. Calculate the number of debenture that were issued.

- 14) “चालू परिसम्पत्तियाँ” तथा “चालू दायित्व” का मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि :- [2]

स्कंध (रह्तियाँ)	₹60,000
तरल सम्पत्तियाँ	₹2,40,000
तरलता अनुपात	= 2 : 1

Calculate the value of "Current Assets" and "Current Liabilites", If :-

Stock (Inventory)	₹60,000
Liquid Assets	₹2,40,000
Quick Ratio	= 2 : 1

- 15) युवराज लिमिटेड ने परिसम्पत्तियों पर ₹26,000 का मूल्य-ह्रास प्रभारित (चार्ज) करने के पश्चात् ₹74,000 का लाभ अर्जित किया। [2]

अन्य सूचनाएँ :

आयकर भुगतान किया ₹20,000

परिचालन क्रियाओं द्वारा रोकड़-प्रवाह की गणना कीजिए।

Yuvraj Limited made a net profit ₹74,000 after charging the depreciation of ₹26,000 on Assets

Other informations :

Income Tax paid ₹20,000.

Calculate the cash flow form operating activities.

खण्ड – स
SECTION - C

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न : (शब्द सीमा 100 शब्द)

Long answer type questions : (Word Limit -100)

- 16) नंदा और भंवर फर्म में साझेदार है, इनकी स्थिर पूंजी क्रमशः ₹3,00,000 और ₹4,00,000 थी। यदि पूंजी पर ब्याज व लाभ-हानि अनुपात पर साझेदारी संलेख मूक है, और वर्ष का शुद्ध लाभ ₹55,000 है, तो लाभ-हानि विनियोग (नियोजन) खाता बनाइए। [3]

Nanda and Bhanwar are partners in a firm. Their fixed capitals were ₹3,00,000 and ₹4,00,000 respectively. If the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and profit and losses sharing ratio's, and net profit for the year is ₹55,000, prepare Profit and Loss Appropriation Account.

अथवा/OR

विनोद और कोमल एक फर्म में 2 : 3 में लाभ बाँटते हुए साझेदार है, इनकी स्थिर पूंजी क्रमशः ₹2,40,000 और ₹2,60,000 थी। 31 मार्च, 2024 को पुस्तके बंद करने के पश्चात् पाया कि उनको पूंजी पर 10% वार्षिक दर से ब्याज लगाना भूल गये। समायोजन प्रविष्टि दर्ज कीजिए। [3]

Vinod and Komal are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 2 : 3. Their fixed capitals were ₹2,40,000 and ₹2,60,000 respectively. On 31st March, 2024, after closing the books it was found that Interest on Capital @ 10% per annum was omitted. Record the Adjustment Entry.

- 17) फर्म के विघटन पर जर्नल प्रविष्टियाँ बनाइए, यदि – [3]

- i) एक गैर-अभिलिखित ₹5,000 का टाइपराइटर, एक साझेदार गणेश द्वारा लिया।
- ii) लेनदार ₹25,000 के थे, उन्होंने अपने पूर्ण भुगतान में ₹25,000 के मूल्य के देनदारों को स्वीकार किया।
- iii) वसूली व्यय ₹25,000 हुए।

Pass journal Entries on the dissolution of a firm, if

- i) Unrecorded Typewriter of ₹5,000 is taken by a partner Ganesh.
- ii) Creditors were ₹25,000, they Accepted Debtors valued at ₹25,000 in full settlement of their claim.
- iii) Realisation expense amounted to ₹25,000.

अथवा/OR

सूची (अ) का सूची (ब) के साथ मिलान कीजिए :

[3]

सूची (अ) - स्थिति	सूची (ब) - फर्म के विघटन की रीतियाँ
i) सभी साझेदारों की सहमति पर।	a) अनिवार्य समापन
ii) जब फर्म का व्यवसाय गैर-कानूनी (अवैध) हो जाए।	b) न्यायालय द्वारा विघटन
iii) जब कोई साझेदार मानसिक संतुलन खो दे।	c) समझौते द्वारा विघटन

Match the List (A) with List (B) :

List (A) - Conditions	List (B) - Methods of Dissolution of a firm
i) With the consent of the all partners	a) Compulsory Dissolution
ii) When the business of the firm becomes illegal.	b) Dissolution by Court
iii) When a partner becomes insance	c) Dissolution by Agreement

18) निम्नलिखित सूचनाओं से 'विक्रय' व 'सकल लाभ' की राशि ज्ञात कीजिए :-

[3]

स्कंध आवर्त अनुपात = 6 गुना

औसत स्कंध = ₹80,000

विक्रय मूल्य, लागत मूल्य से 25% अधिक है।

Calculate the amount of "Sales and " Gross profit" from the following informations:-

Stock Turnover Ratio = 6 times

Average Stock = ₹80,000

Selling Price is 25% excess on cost.

अथवा/OR

सूची (अ) का सूची (ब) के साथ मिलान कीजिए :

[3]

सूची (अ) - लेखांकन अनुपात	सूची (ब) - वर्ग/श्रेणी
i) चालू अनुपात	a) लाभदायकता अनुपात
ii) ब्याज आवरण अनुपात	b) शोधनक्षमता अनुपात
iii) परिचालन अनुपात	c) तरलता अनुपात

Match the List (A) with List (B) :

List (A) - Accounting Ratio	List (B) - Category
i) Current Ratio	a) Profitability Ratio
ii) Interest Coverage Ratio	b) Solvency Ratio
iii) Operating Ratio	c) Liquidity Ratio

19) निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर “वित्तिय-क्रियाओं” से रोकड़-प्रवाह की गणना कीजिए : [3]

मर्दे	2023	2024
समता अंश पूंजी	₹6,00,000	₹7,50,000
8% ःरणपत्र	₹1,00,000	₹50,000

चालू वर्ष के दौरान समता अंशों के प्रारंभिक शेष पर 20 प्रतिशत लाभांश व ःरणपत्रों के प्रारंभिक शेष पर ब्याज का भुगतान किया गया।

Calculate the cash flow from " Financing-Activities" from the following informations:-

Item	2023	2024
Equity Share Capital	₹6,00,000	₹7,50,000
8% Debentures	₹1,00,000	₹50,000

During the year 20% dividend is paid on opening balance of Equity shares and interest is paid on opening balance of debentures.

अथवा/OR

सूची (अ) का सूची (ब) के साथ मिलान कीजिए :- [3]

सूची (अ) - व्यवहार	सूची (ब) - क्रियाकलाप का प्रकार
i) ग्राहक को माल बेचा	a) वित्तिय गतिविधि
ii) ब्याज तथा लाभांश से प्राप्ति	b) परिचालन गतिविधि
iii) ःरणपत्रों का शोधन	c) विनियोग गतिविधि

Match the List (A) with List (B):-

List (A) - Transactions	List (B) - Types of Activity
i) Sale of goods to customer	a) Financing Activity
ii) Receipts from interest and dividend	b) Operating Activity
iii) Redemption of debentures	c) Investing Activity

निबंधात्मक प्रश्न : (शब्द सीमा - 200 शब्द)

Essy type questions : (Word Limit - 200)

- 20) अविनाश और भावेश एक फर्म में 3 : 5 में लाभ-हानि बाँटते हुए साझेदार हैं, 31 मार्च, 2023 को इनका तुलन-पत्र (आर्थिक-चिठ्ठा) निम्न था : [4]

दायित्व	₹	परिसम्पत्तियाँ	₹
लेनदार	4,00,000	बैंक	3,60,000
सामान्य संचय	3,00,000	देनदार 4,60,000	
पूंजी खाते :		(-) डूबत ऋणों के लिए	
अविनाश - 5,00,000		प्रावधान <u>20,000</u>	
भावेश - <u>4,00,000</u>	9,00,000		4,40,000
		प्लांट	8,00,000
	16,00,000		16,00,000

अन्य सूचनाएँ :

वे 1 अप्रैल, 2023 को 'राहुल' को निम्न शर्तों के साथ लाभों में 1/3 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं :

- राहुल अपने हिस्से की पूंजी व ख्याति के लिए संयुक्त रूप से ₹4,80,000 रोकड़ लाता है।
- फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ ₹1,20,000 के दो वर्षों के क्रय के बराबर किया गया।

“साझेदारों के पूंजी खाते” बनाइए।

Avinash and Bhavesh are partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3 : 5, their Balance-Sheet as at 31st March, 2023 was as follows:-

Balance-Sheet

Liabilities	₹	Assets	₹
Creditors	4,00,000	Bank	3,60,000
General Reserve	3,00,000	Debtors 4,60,000	
Capital A/c's:-		(-) provision	
Avinash - 5,00,000		for bad debts <u>20,000</u>	
Bhavesh - <u>4,00,000</u>	9,00,000	Plant	8,00,000
	16,00,000		16,00,000

Other informations :-

On 1st April, 2023 they admitted "Rahul" as new partner for 1/3rd share in profit on the following terms:-

- Rahul will bring cash of ₹4,80,000 for his share of capital and goodwill Jointly.
- Goodwill of the firm has been valued at 2 years purchase of the super profit of ₹1,20,000.

Prepare "Partners Capital Account"?

अथवा/OR

नये साझेदार के प्रवेश पर :-

[4]

“सम्पत्तियों और दायित्वों के पूनर्मूल्यांकन” से संबंधित जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए :-

- परिसम्पत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर
- दायित्वों के मूल्यों में कमी होने पर
- गैर अभिलिखित दायित्वों के लिए
- गैर अभिलिखित परिसम्पत्तियों के लिए
- पूनर्मूल्यांकन पर हानि को पूंजी खातों में हस्तांतरण के लिए

Give journal Entries related to "Revaluation of Assets and Liabilities", at the time of admission of a new partner :-

- For increase in the value of an asset
- For reduction in the value of liabilities.
- For unrecorded liabilities.
- For unrecorded Assets
- For transferring the loss on revaluation in partners Capital Account.

- 21) रंगोली लिमिटेड ने ₹10 वाले 10,000 समता अंशों के लिए 10% प्रीमियम पर आवेदन हेतु प्रविवरण जारी किया, राशियाँ इस प्रकार देय थी : [4]

आवेदन पर	₹3
बंटन पर	₹6 (प्रीमियम सहित)
प्रथम व अंतिम मांग पर	₹2

9,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्रियंका जिसे 400 अंश बंटित किये, मांग राशि का बंटन के साथ भुगतान कर दिया। रंगोली लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए (केवल आवेदन व आबंटन के लिए) –

Rangoli Limited issued prospectus inviting applications for 10,000 Equity Share of ₹10 at 10% premium, amounts payable are as follows:-

On Application	₹3
On Allotment	₹6 (Including premium)
On first and final call	₹2

Application were received for ₹9,000 Shares. Priyanka, who was allotted 400 shares paid call money with allotment. Pass necessary Journal Entries in the books of Rangoli Limited. (Only for Application and Allotment)

अथवा/OR

स्मिता लिमिटेड ने 500 समता अंश ₹100 प्रति अंश वाले का हरण किया, जिन पर ₹90 प्रति अंश मांगा गया था। इन अंशों पर ₹40 प्रति अंश प्रथम व अंतिम मांग के बकाया थे, कम्पनी ने इन्हें ₹70 प्रति अंश पूर्ण-प्रदत्त पर पुनः निर्गमित कर दिये। कम्पनी की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए तथा “अंश-हरण खाता” बनाइए। [4]

Smita Limited forfeited 500 equity shares of ₹100 each on which ₹90 per share was called-up. There was a arrear of ₹40 each of first and final call on these shares. Company re-issued these shares at ₹70 per share as fully paid-up. Give necessary Journal Entries in the books of company and prepare "Share forfeiture A/c".

22) राजवीर लिमिटेड की पुस्तकों में निम्न की आवश्यक प्रविष्टियाँ दर्ज कीजिए :- [4]

- i) ₹100 प्रत्येक के 1,200; 9% ऋणपत्र सममूल्य पर निर्गमित एवं 20% प्रीमियम पर शोधनीय है।
- ii) ₹1,000 प्रत्येक 150; 8% ऋणपत्र 10% बट्टे पर निर्गमित एवं 5% प्रीमियम पर शोधनीय है।

Record the necessary Journal Entries in the books of Rajveer Limited for the following :-

- i) 1,200; 9% Debentures of ₹100 each are issued at par and redeemable at 20% premium.
- ii) 150; 8% Debenture of ₹1,000 each are issued at 10% discount and redeemable at 5% premium.

अथवा/OR

अनु लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक से ₹4,00,000 का ऋण लेती है, और समपाश्चिर्क प्रतिभूति के रूप में ₹100 प्रति ऋणपत्र की दर से 5,000; 9% ऋणपत्र निर्गमित करती है। कम्पनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दर्ज कीजिए तथा आप इसे तुलन-पत्र (आर्थिक चिट्ठे) में कैसे दर्शायेंगे, यदि इनका पुस्तकों में लेखा किया जाता हो। [4]

Annu Limited took a loan of ₹4,00,000 from Punjab National Bank, and issued 5,000; 9% debentures of ₹100 each as a collateral security. Record the entries in the books of company and how will you show in Balance-Sheet, if it will be recorded in the books.



DO NOT WRITE ANYTHING HERE